



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 383]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 3, 1983/भाद्र 12, 1905

No. 383]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER, 1983/BHADRA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह असंग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Faging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1983

का०आ० 633(अ):—केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं०का०आ० 98(अ)/उ वि वि अ/29-ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की मद 3 में, खण्ड (ग) के नीचे के परन्तुक के उपखंड (i) में “और संघटकों” शब्दों का लोप किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 29-ख की उपधारा (2) के अनुसरण में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि को उस अवधि

के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसकी समाप्ति के पश्चात् ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम का स्वामी, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11क और 13 के प्रवर्तन से छूट प्राप्त थी और जिसको इस अधिसूचना के फलस्वरूप इस प्रकार छूट प्राप्त नहीं है, ऐसे उपक्रम का कारबार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार और किसी राज्य सरकार की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार ही चलाएगा अन्यथा नहीं।

[का०सं० 11/5/83-एल०पी०]

एस०एल० कपूर, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—

अधिसूचना सं० का०आ० 98(अ)/उ वि वि अ/29ख 73/1, तारीख 16-2-1973 का तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

- (1) अधिसूचना सं० का०आ० 1817 तारीख 18-6-73
- (2) अधिसूचना सं० का०आ० 671(अ)/उ वि वि अ/73/3, तारीख 31-10-73

- (3) अधिसूचना सं० का०आ० 122(अ)/उ वि वि अ/74 तारीख 26-2-74
- (4) अधिसूचना सं० का०आ० 123(अ)/उ वि वि अ/29ख/74/2 तारीख 26-2-74
- (5) अधिसूचना सं० का०आ० 152(अ)/उ वि वि अ/74/13 तारीख 29-8-74
- (6) अधिसूचना सं० का०आ० 220(अ) उ वि वि अ/29ख/75 तारीख 19-5-1975
- (7) अधिसूचना सं० का०आ० 368(अ)/उ वि वि अ/29ख/75/4 तारीख 21-7-75
- (8) अधिसूचना सं० का०आ० 652(अ)/उ वि वि अ/75/9 तारीख 13-11-75
- (9) अधिसूचना सं० का०आ० 406(अ)/उ वि वि अ/29ख/76/2 तारीख 5-6-76
- (10) अधिसूचना सं० का०आ० 736(अ)/उ वि वि अ/29ख/75, तारीख 16-12-76
- (11) अधिसूचना सं० का०आ० 801(अ)/उ वि वि अ/29ख/76 तारीख 17-12-76
- (12) अधिसूचना सं० का०आ० 249(अ)/उ वि वि अ/29ख/75 तारीख 4-4-78
- (13) अधिसूचना सं० का०आ० 281(अ) तारीख 16-4-78
- (14) अधिसूचना सं० का०आ० 750(अ) तारीख 30-12-78
- (15) अधिसूचना सं० का०आ० 479(अ) तारीख 22-8-79
- (16) अधिसूचना सं० का०आ० 563(अ) तारीख 3-10-79
- (17) अधिसूचना सं० का०आ० 564(अ) तारीख 4-10-79
- (18) अधिसूचना सं० का०आ० 758(अ) तारीख 24-11-79
- (19) अधिसूचना सं० का०आ० 761(अ) तारीख 27-11-79
- (20) अधिसूचना सं० का०आ० 48(अ) तारीख 19-1-80
- (21) अधिसूचना सं० का०आ० 100(अ) तारीख 18-2-80
- (22) अधिसूचना सं० का०आ० 193(अ) तारीख 14-3-80
- (23) अधिसूचना सं० का०आ० 312(अ) तारीख 12-5-80
- (24) अधिसूचना सं० का०आ० 344(अ) तारीख 23-5-80
- (25) अधिसूचना सं० का०आ० 594(अ) तारीख 31-7-80
- (26) अधिसूचना सं० का०आ० 610(अ) तारीख 2-8-80
- (27) अधिसूचना सं० का०आ० 861(अ) तारीख 24-10-80
- (28) अधिसूचना सं० का०आ० 868(अ) तारीख 25-10-80
- (29) अधिसूचना सं० का०आ० 879(अ) तारीख 5-11-80
- (30) अधिसूचना सं० का०आ० 880(अ) तारीख 5-11-80
- (31) अधिसूचना सं० का०आ० 115(अ) तारीख 19-2-81
- (32) अधिसूचना सं० का०आ० 293 (अ) तारीख 7-4-81
- (33) अधिसूचना सं० का०आ० 320(अ) तारीख 25-4-81
- (34) अधिसूचना सं० का०आ० 407(अ) तारीख 2-6-81
- (35) अधिसूचना सं० का०आ० 516(अ) तारीख 27-6-81
- (36) अधिसूचना सं० का०आ० 621(अ) तारीख 3-8-81

- (37) अधिसूचना सं० का०आ० 655(अ) तारीख 18-8-81
- (38) अधिसूचना सं० का०आ० 909(अ) तारीख 23-12-81
- (39) अधिसूचना सं० का०आ० 49(अ) तारीख 25-1-82
- (40) अधिसूचना सं० का०आ० 556(अ) तारीख 6-8-82
- (41) अधिसूचना सं० का०आ० 603(अ) तारीख 17-8-82
- (42) अधिसूचना सं० का०आ० 623(अ) तारीख 31-8-82
- (43) अधिसूचना सं० का०आ० 744(अ) तारीख 15-10-82
- (44) अधिसूचना सं० का०आ० 751(अ) तारीख 19-10-82
- (45) अधिसूचना सं० का०आ० 6(अ) तारीख 6-1-83
- (46) अधिसूचना सं० का०आ० 37(अ) तारीख 22-1-83
- (47) अधिसूचना सं० का०आ० 188(अ) तारीख 19-3-83
- (48) अधिसूचना सं० का०आ० 328(अ) तारीख 23-4-83

### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 1983

**S.O. 633(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S. O. 98(E)/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, namely :—

In the said notification in item 3, in sub-clause (i) of proviso under clause (c), the words “and components” shall be omitted.

2. In pursuance of sub-section (2) of section 29B of the said Act, the Central Government hereby specifies a period of six months from the date of publication of this notifications in the Official Gazette as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking which was exempted from the operation of sections 10, 11, 11A and 13 of the said Act and which is not exempt by virtue of this notification shall carry on the business of such undertaking except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and in the case of State Government except under and in accordance with the previous permission of the Central Government.

[File No. 11/5/83-LP]

S.L. KAPUR, Joint Secy.

### NOTE

Notification No. S. O. 98(E)/IDRA/29B/73/1 dated 16-2-73 has been subsequently amended by :

- (1) Notification No. S.O. 1817 dated 18-6-73
- (2) Notification No. S. O. 671(E)/IDRA/73/3 dt. 31-10-73
- (3) Notification No. S.O. 122(E)/IDRA/74/3 dt. 26-2-74
- (4) Notification No. S.O. 123(E)/IDRA/29B/74/2 dt. 26-2-74
- (5) Notification No. S.O. 152(E)/IDRA/74/13 dt. 29-8-74
- (6) Notification No. S.O. 220(E)/IDRA/29B/75 dt. 19-5-75
- (7) Notification No. S.O. 368(E)/IDRA/29B/75/4 dt. 21-7-75
- (8) Notification No. S.O. 652(E)/IDRA/75/9 dt. 13-11-75
- (9) Notification No. S.O. 406(E)/IDRA/29B/76/2 dt. 5-6-76

- |   |  |
|---|--|
| (10) Notification No. S.O. 736(E)/IDRA/29B/75 dt. 16-12-76  | (30) Notification No. S.O. 880(E) dt. 5-11-80  |
| (11) Notification No. S.O. 801(E)/IDRA/29 B/76 dt. 17-12-76 | (31) Notification No. S.O. 115(E) dt. 19-2-81  |
| (12) Notification No. S.O. 249(E)/IDRA/29B/75 dt. 4-4-78    | (32) Notification No. S.O. 293(E) dt. 7-4-81   |
| (13) Notification No. S.O. 281(E) dt. 26-4-78               | (33) Notification No. S.O. 320(E) dt. 25-4-81  |
| (14) Notification No. S.O. 750(E) dt. 30-12-78              | (34) Notification No. S.O. 407(E) dt. 2-6-81   |
| (15) Notification No. S.O. 479(E) dt. 22-8-79               | (35) Notification No. S.O. 516(E) dt. 27-6-81  |
| (16) Notification No. S.O. 563(E) dt. 3-10-79               | (36) Notification No. S.O. 621(E) dt. 3-8-81   |
| (17) Notification No. S.O. 564(E) dt. 4-10-79               | (37) Notification No. S.O. 655(E) dt. 18-8-81  |
| (18) Notification No. S.O. 758(E) dt. 24-11-79              | (38) Notification No. S.O. 909(E) dt. 23-12-81 |
| (19) Notification No. S.O. 761(E) dt. 27-11-79              | (39) Notification No. S.O. 49(E) dt. 25-1-82   |
| (20) Notification No. S.O. 48(E) dt. 19-1-80                | (40) Notification No. S.O. 556(E) dt. 6-8-82   |
| (21) Notification No. S.O. 100(E) dt. 18-2-80               | (41) Notification No. S.O. 603(E) dt. 17-8-82  |
| (22) Notification No. S.O. 193(E) dt. 14-3-80               | (42) Notification No. S.O. 623(F) dt. 31-8-82  |
| (23) Notification No. S.O. 312(E) dt. 12-5-80               | (43) Notification No. S.O. 744(E) dt. 15-10-82 |
| (24) Notification No. S.O. 344(E) dt. 23-5-80               | (44) Notification No. S.O. 751(E) dt. 19-10-82 |
| (25) Notification No. S.O. 594(E) dt. 31-7-80               | (45) Notification No. S.O. 6(E) dt. 6-1-83     |
| (26) Notification No. S.O. 610(E) dt. 2-8-80                | (46) Notification No. S.O. 37(E) dt. 22-1-83   |
| (27) Notification No. S.O. 861(E) dt. 24-10-80              | (47) Notification No. S.O. 188(E) dt. 19-3-83  |
| (28) Notification No. S.O. 868(E) dt. 25-10-80              | (48) Notification No. S.O. 328(E) dt. 23-4-83  |
| (29) Notification No. S.O. 879(E) dt. 5-11-80               |  |

